



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 12 अप्रैल, 2021

चैत्र 22, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सतर्कता अनुभाग-4

संख्या लो0आ0-116/39-4-2021-15(41)-15

लखनऊ, 12 अप्रैल, 2021

अधिसूचना
नियुक्ति

प0आ0-360

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश में निहित अधिकार का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ने श्री सुरेन्द्र कुमार यादव, सेवानिवृत्त जिला जज को विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 521/39-4-2021-15(41)-15, दिनांक 6 अप्रैल, 2021 द्वारा उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश का उप लोक आयुक्त नियुक्त किया था। अतएव एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र कुमार यादव ने दिनांक 12 अप्रैल, 2021 के पूर्वान्ह में शपथ ग्रहण करने के पश्चात् उप लोकायुक्त के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया।

राज्यपाल की आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवरस्थी,
अपर मुख्य सचिव।